

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 411]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2016—आश्विन 9, शक 1938

खनिज साधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-19-4-2016-बारह-दो.—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 17-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा पत्र क्रमांक 4/7/2015/एम-छह, दिनांक 8 मार्च 2016 से दिए गए अनुमोदन उपरान्त, राज्य सरकार, नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार बालाघाट जिले के ग्राम टवेझरी के रकबा 144.401 हेक्टेयर एवं ग्राम मन्झारा के रकबा 228.300 हेक्टेयर (कुल रकबा 372.701 हेक्टेयर) क्षेत्र, (नीचे अनुसूची में निम्न अनुसार) को भारत सरकार के उपक्रम मॉयल लिमिटेड के पक्ष में मैंगनीज खनिज हेतु एतद्वारा आरक्षित करती है, अर्थात्:—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.में)	स्थिति
1	टवेझरी	भाग १८/१	१.६१४	सरकारी भूमि सडक
2	टवेझरी	१८/२	०.०८१	सरकारी भूमि
3	टवेझरी	१६	०.१४६	सरकारी भूमि
4	टवेझरी	२०/१	०.१४६	निजी भूमि
5	टवेझरी	२०/२	०.४०५	निजी भूमि
6	टवेझरी	२०/४	०.३०५	निजी भूमि
7	टवेझरी	२१/१	०.६३	निजी भूमि
8	टवेझरी	२१/२	०.०६६	निजी भूमि
9	टवेझरी	२१/३	०.६३	निजी भूमि
10	टवेझरी	२२/१	०.४७४	निजी भूमि
11	टवेझरी	२२/२	०.२६३	निजी भूमि

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.में)	स्थिति
12	टवेझरी	२२/३	०.२५६	निजी भूमि
13	टवेझरी	२२/४	०.३७	निजी भूमि
14	टवेझरी	२२/५, २६/२, ३०/३	०.२६	सरकारी भूमि जल
15	टवेझरी	२३/१, २४/१, २ एवं २६/२	०.५५६	निजी भूमि
16	टवेझरी	२३/२, २४/३, एवं २६/३	०.२०२	निजी भूमि
17	टवेझरी	२४/१, २४/२	०.०५७	निजी भूमि
18	टवेझरी	२५, २६/१	०.२०३	निजी भूमि
19	टवेझरी	२७/१	०.४८२	निजी भूमि
20	टवेझरी	२७/२	०.१२६	निजी भूमि
21	टवेझरी	२७/३	०.२०६	निजी भूमि
22	टवेझरी	२७/४	०.२१	निजी भूमि
23	टवेझरी	२७/५	०.३५२	निजी भूमि
24	टवेझरी	२८/१	०.१७८	निजी भूमि
25	टवेझरी	२८/२	०.१८	निजी भूमि
26	टवेझरी	२६/१	०.२१	निजी भूमि
27	टवेझरी	२६/२, ३०/३	०.२६	निजी भूमि
28	टवेझरी	२६/३	०.८४३	निजी भूमि
29	टवेझरी	३०/१	०.८०६	निजी भूमि
30	टवेझरी	३०/२	०.०७७	निजी भूमि
31	टवेझरी	३०/४	०.४१३	निजी भूमि
32	टवेझरी	३१/१	०.११७	निजी भूमि
33	टवेझरी	३१/२	०.१८६	निजी भूमि
34	टवेझरी	३१/३, ३३/१	०.५४७	निजी भूमि
35	टवेझरी	३१/४	०.१६४	निजी भूमि
36	टवेझरी	३१/६, ३३/६	०.३४८	निजी भूमि
37	टवेझरी	३१/७, ३३/७	०.३२	निजी भूमि
38	टवेझरी	३२/२	०.५४४	निजी भूमि
39	टवेझरी	३२/३	०.२०२	निजी भूमि
40	टवेझरी	३२/४	०.४०५	निजी भूमि
41	टवेझरी	३२/५	०.१८६	निजी भूमि
42	टवेझरी	३२/६	०.१८६	निजी भूमि
43	टवेझरी	३२/७	०.२७६	निजी भूमि
44	टवेझरी	३३/१	०.८७८	निजी भूमि
45	टवेझरी	३३/३ख	०.२६	निजी भूमि
46	टवेझरी	३३/३ग	०.०६३	निजी भूमि

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.में)	स्थिति
47	टवेझरी	३३/८, ३१/८	०.३८६	निजी भूमि
48	टवेझरी	३३/१ग, ३४/२ख	०.८७८	निजी भूमि
49	टवेझरी	३३/३ घ	०.०६३	निजी भूमि
50	टवेझरी	३४/१	०.०२८	सरकारी भूमि
51	टवेझरी	३४/३क	०.१७०	निजी भूमि
52	टवेझरी	३४/३ ख	०.५०६	निजी भूमि
53	टवेझरी	३४/३ ग	०.१६६	निजी भूमि
54	टवेझरी	३४/३ घ	०.१७०	निजी भूमि
55	टवेझरी	३५	१.२२६	निजी भूमि
56	टवेझरी	३६/१	०.४०५	निजी भूमि
57	टवेझरी	३६/२	०.२१८	निजी भूमि
58	टवेझरी	३७/१, ३६/१	०.००२	निजी भूमि
59	टवेझरी	३७/३, ३६/३	०.१८२	निजी भूमि
60	टवेझरी	३७/४, ३६/४	०.१८२	निजी भूमि
61	टवेझरी	३७/५, ३६/५	०.३०४	निजी भूमि
62	टवेझरी	३८/१	०.२५१	निजी भूमि
63	टवेझरी	३८/२, ४०	०.६०३	निजी भूमि
64	टवेझरी	४१/१	०.६१	निजी भूमि
65	टवेझरी	४१/२	०.१०६	निजी भूमि
66	टवेझरी	४१/४	०.०६३	निजी भूमि
67	टवेझरी	४१/५	०.०६७	निजी भूमि
68	टवेझरी	४१/१, ४१/३	०.६१	निजी भूमि
69	टवेझरी	४१/३	०.०७७	निजी भूमि
70	टवेझरी	४२/१	०.६७५	निजी भूमि
71	टवेझरी	४२/२	०.२१	निजी भूमि
72	टवेझरी	४३	०.७०४	निजी भूमि
73	टवेझरी	४४/२५, ४५/२५	०.१२५	निजी भूमि
74	टवेझरी	४४/१, ४५/१	०.१६४	निजी भूमि
75	टवेझरी	४६/१	०.८१४	निजी भूमि
76	टवेझरी	४६/२	०.८२५	निजी भूमि
77	टवेझरी	४६/३	०.०२६	निजी भूमि
78	टवेझरी	४६/४, ५	०.२५६	निजी भूमि
79	टवेझरी	भाग ४७/१	०.१६५	मॉयल की भूमि
80	टवेझरी	४७/३	०	४६/३ में शामिल
81	टवेझरी	४७/४	०	४६/४ में शामिल

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.में)	स्थिति
82	टवेझरी	भाग ४८/१	०.०८०	सरकारी भूमि
83	टवेझरी	४८/२ क, ५०/२क	०.१४६	मौयल
84	टवेझरी	४८/२ ख, ५०/२घ	०.१७८	मौयल
85	टवेझरी	४६/१	०.४८३	मौयल
86	टवेझरी	४६/२	०.४५४	मौयल
87	टवेझरी	४६/३	०.३०४	मौयल
88	टवेझरी	४८/२ च, ५०/२ज	०.२१२	मौयल
89	टवेझरी	४८/२ग, ५०/२क	०.४०१	मौयल
90	टवेझरी	५०/१	०.२४३	मौयल
91	टवेझरी	५०/२ ग	०.३७६	निजी भूमि
92	टवेझरी	भाग ५०/२ख	०.५६२	मौयल
93	टवेझरी	५६/१ क	०.१८२	सरकारी भूमि
94	टवेझरी	भाग ५६/३ ग	०.१३६	मौयल एवं निजी
95	टवेझरी	भाग ५६/५	०.२६७	मौयल
96	टवेझरी	भाग ५६/१ ख, ५६/१ ग	०.४००	मौयल
97	टवेझरी	भाग ५६/६	०.१५०	मौयल
98	टवेझरी	६०/१, ६१/१	०.८८६	मौयल
99	टवेझरी	६०/५	०.४२६	मौयल
100	टवेझरी	६०/६	०.१७	मौयल
101	टवेझरी	६१/२	०.१८२	मौयल
102	टवेझरी	६२/२, ६७/३, ६८/१ क, ६८/१ ख, ६८/१ग, ६८/२	५.२३६	सडक
103	टवेझरी	भाग ६२/१	०.७४०	मौयल
104	टवेझरी	भाग ६३/१, ६३/२, ६३/३, ६३/४,	०.६३७	निजी भूमि
105	टवेझरी	७४	०.६५२	सरकारी भूमि
106	टवेझरी	७५/१	०.४६८	निजी भूमि
107	टवेझरी	७५/२	०.४०५	निजी भूमि
108	टवेझरी	७६/१, ७७/१	०.०४५	निजी भूमि
109	टवेझरी	७६/२	०.२१४	निजी भूमि
110	टवेझरी	७६/३	०.५६७	निजी भूमि
111	टवेझरी	७६/४	०.२०२	निजी भूमि
112	टवेझरी	७६/५	०.०५३	निजी भूमि
113	टवेझरी	७६/६	०.३१६	निजी भूमि
114	टवेझरी	७७/२	०.३४४	निजी भूमि
115	टवेझरी	७८/१	०.२२३	निजी भूमि

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.में)	स्थिति
116	टवेझरी	७८/२	०.२१८	निजी भूमि
117	टवेझरी	७८/३	०.३०८	निजी भूमि
118	टवेझरी	७८/४	०.११३	निजी भूमि
119	टवेझरी	७९/१	०.२५६	निजी भूमि
120	टवेझरी	७९/२	०.२०६	निजी भूमि
121	टवेझरी	७९/३	०.२४३	निजी भूमि
122	टवेझरी	७९/४	०.०६५	निजी भूमि
123	टवेझरी	७९/५	०.२०६	निजी भूमि
124	टवेझरी	७९/६	०.१७४	निजी भूमि
125	टवेझरी	७९/७	०.२८३	निजी भूमि
126	टवेझरी	७९/८	०.१८२	निजी भूमि
127	टवेझरी	८०/१	०.३४	निजी भूमि
128	टवेझरी	८०/२	०.२६१	निजी भूमि
129	टवेझरी	८०/३	०.२१४	निजी भूमि
130	टवेझरी	८०/४	०.२३५	निजी भूमि
131	टवेझरी	८१/१, ८१/२	०.१६२	निजी भूमि
132	टवेझरी	८१/३	०.५५१	निजी भूमि
133	टवेझरी	८१/४	०.७६५	निजी भूमि
134	टवेझरी	८१/५	०.७	निजी भूमि
135	टवेझरी	८२/१क	०.७०६	निजी भूमि
136	टवेझरी	८२/२	०.२०२	निजी भूमि
137	टवेझरी	८३/१	०.३५६	निजी भूमि
138	टवेझरी	८३/२	०.२४३	निजी भूमि
139	टवेझरी	८३/३	०.६०७	निजी भूमि
140	टवेझरी	८४	०.६४	निजी भूमि
141	टवेझरी	८५/१, ८५/२	०.७६४	निजी भूमि
142	टवेझरी	८६	०.५५१	निजी भूमि
143	टवेझरी	८७/२	०.०२	निजी भूमि
144	टवेझरी	८७/३	०.४४६	निजी भूमि
145	टवेझरी	८८	०.३१५	निजी भूमि
146	टवेझरी	८९	०.३३६	निजी भूमि
147	टवेझरी	९०/१	०.६३६	निजी भूमि
148	टवेझरी	९०/२	०.१३३	निजी भूमि
149	टवेझरी	९१	०.६७१	सरकारी चाला
150	टवेझरी	९४	०.०८१	निजी भूमि
151	टवेझरी	९५	०.१७	शासकीय घास

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.में)	स्थिति
152	टवेझरी	६६	०.२०६	निजी भूमि
153	टवेझरी	६७/१	२.१२०	घास
154	टवेझरी	६७/२	०.५१८	सरकारी भूमि घास
155	टवेझरी	६७/३	०.०८१	सरकारी भूमि
156	टवेझरी	६८/१	१.२६३	सरकारी भूमि
157	टवेझरी	६८/२	०.०३२	सरकारी भूमि
158	टवेझरी	६६/१	०.०३२	निजी भूमि
159	टवेझरी	६६/२	०.०३२	निजी भूमि
160	टवेझरी	६६/३	०.०७३	निजी भूमि
161	टवेझरी	१००	०.०५७	निजी भूमि
162	टवेझरी	१०१	०.०४५	सरकारी भूमि आबादी
163	टवेझरी	१०२/१	०.०३२	निजी भूमि
164	टवेझरी	१०३/१,१०३/२	०.११७	निजी भूमि
165	टवेझरी	१०४	०.०७३	निजी भूमि
166	टवेझरी	१०५/१	०.०६७	निजी भूमि
167	टवेझरी	१०६	०.०४५	निजी भूमि
168	टवेझरी	१०७	०.०३८	निजी भूमि
169	टवेझरी	१०८	०.०२४	निजी भूमि
170	टवेझरी	१०९	०.०५७	निजी भूमि
171	टवेझरी	११०	०.०४५	निजी भूमि
172	टवेझरी	१११	०.०८१	निजी भूमि
173	टवेझरी	११२	०.१३४	निजी भूमि
174	टवेझरी	११३/१	०.०२८	निजी भूमि
175	टवेझरी	११३/२	०.००४	निजी भूमि
176	टवेझरी	११५, ११६	०.०८१	निजी भूमि
177	टवेझरी	११७	०.०५७	निजी भूमि
178	टवेझरी	२३६/१ क, २३८/२, २७८, २६४/२, २८५/२, २८६/५, २८८/२, २६३/७, २६६/२, ३०७/२	०.००	सड़क
179	टवेझरी	२४७/२ख	०.००	निजी भूमि
180	टवेझरी	२४७/१ख	०.१०१	निजी भूमि
181	टवेझरी	२४७/१क	०.४०१	निजी भूमि
182	टवेझरी	२४८/१	०.५२६	निजी भूमि
183	टवेझरी	२४८/२	०.४०५	निजी भूमि
184	टवेझरी	२४८/३	०.५२६	निजी भूमि

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.में)	स्थिति
185	टवेझरी	२४६/१	२.४५२	निजी भूमि
186	टवेझरी	२५०/१क	०.८६	निजी भूमि
187	टवेझरी	२५०/१ख	०.१०६	निजी भूमि
188	टवेझरी	२५०/१ग	०.७०६	निजी भूमि
189	टवेझरी	२५०/१घ, २६५/१	०.४७०	निजी भूमि
190	टवेझरी	२५०/१च	०.४०५	निजी भूमि
191	टवेझरी	२५१/१	०.२०२	निजी भूमि
192	टवेझरी	२५१/२	१.२३०	निजी भूमि
193	टवेझरी	२५२/१क	०.२५६	निजी भूमि
194	टवेझरी	२५२/१ख	०.३६४	निजी भूमि
195	टवेझरी	२५२/१ग	०.४०५	निजी भूमि
196	टवेझरी	२५२/३	०.१३४	निजी भूमि
197	टवेझरी	२५३/१	०.३६	निजी भूमि
198	टवेझरी	२५३/२	०.१२५	निजी भूमि
199	टवेझरी	२५३/३	०.००८	निजी भूमि
200	टवेझरी	२५३/४	०.०८१	निजी भूमि
201	टवेझरी	२५४/२	०.२०६	निजी भूमि
202	टवेझरी	२५५, २५७/१	०.०६६	निजी भूमि
203	टवेझरी	२५६/१	०.०५३	निजी भूमि
204	टवेझरी	२५६/२	०.०४६	निजी भूमि
205	टवेझरी	२५८	०.०३६	निजी भूमि
206	टवेझरी	२५९	०.०१६	निजी भूमि
207	टवेझरी	२६०	०.०२४	सरकारी भूमि
208	टवेझरी	२६१	०.०३२	सरकारी भूमि
209	टवेझरी	२६२/१	०.०२४	निजी भूमि
210	टवेझरी	२६२/२	०.०२४	निजी भूमि
211	टवेझरी	२६३	०.०३६	निजी भूमि
212	टवेझरी	२६४/१	०.२७५	सरकारी भूमि
213	टवेझरी	२६४/२	०.०१७६	निजी भूमि
214	टवेझरी	२६५	०.०३२	निजी भूमि
215	टवेझरी	२६६	०.१६	निजी भूमि
216	टवेझरी	२६७/१	०.२५१	निजी भूमि
217	टवेझरी	२६७/२	०.५१	निजी भूमि
218	टवेझरी	२६७/३	०.५७१	निजी भूमि
219	टवेझरी	२६७/४	०.१२६	निजी भूमि

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.में)	स्थिति
220	टवेझरी	२६८/१	०.२३६	निजी भूमि
221	टवेझरी	२६८/२	०.०८६	निजी भूमि
222	टवेझरी	२६८/३	०.१०५	निजी भूमि
223	टवेझरी	२६६	०.८४३	निजी भूमि
224	टवेझरी	२७०/१	१.३६८	निजी भूमि
225	टवेझरी	२७०/२	०.६१५	निजी भूमि
226	टवेझरी	२७१/१	०.४८६	निजी भूमि
227	टवेझरी	२७१/२	०.६८८	सरकारी भूमि सडक
228	टवेझरी	२७२/१	०.१२५	निजी भूमि
229	टवेझरी	२७२/२	०.४३६	निजी भूमि
230	टवेझरी	२७३/१क, २७३/२ख	०.२६६	निजी भूमि
231	टवेझरी	२७३/२क	०.१५६	निजी भूमि
232	टवेझरी	२७३/१ ख, २७४/१ ख, २७४/२ ख	०.२२८	निजी भूमि
233	टवेझरी	२७४/१ क, २७४/१, २७४/२, २७३/१ क	०.३१६	निजी भूमि
234	टवेझरी	२७४/३	०.१४२	निजी भूमि
235	टवेझरी	२७४/४	०.५४३	निजी भूमि
236	टवेझरी	२७३/१ग, २७३/२ग	०.०६१	निजी भूमि
237	टवेझरी	२७५/३	०.४०५	निजी भूमि
238	टवेझरी	२७५/१	०.८०६	निजी भूमि
239	टवेझरी	२७५/२	०.८१	निजी भूमि
240	टवेझरी	२७५/३	०.४०५	निजी भूमि
241	टवेझरी	२७६/१	०.४८६	निजी भूमि
242	टवेझरी	२७७/१	०.१५८	निजी भूमि
243	टवेझरी	२७७/२	०.५४०	निजी भूमि
244	टवेझरी	२७७/३	०.३५२	निजी भूमि
245	टवेझरी	२७८/१	०.२१६	निजी भूमि
246	टवेझरी	२७८/२	०.४७	निजी भूमि
247	टवेझरी	२७८/३	०.२८३	निजी भूमि
248	टवेझरी	२७८/४	०.४८३	निजी भूमि
249	टवेझरी	२७८/५	०.१४६	निजी भूमि
250	टवेझरी	२७८/६	०.०६७	निजी भूमि
251	टवेझरी	२७८/७	०.२६३	निजी भूमि
252	टवेझरी	२७८/६	०.५६७	निजी भूमि
253	टवेझरी	२७६/१	१.५४६	निजी भूमि
254	टवेझरी	२८०/१	०.११७	निजी भूमि
255	टवेझरी	२८०/२	०.५६६	सरकारी भूमि सडक



क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.में)	स्थिति
256	टवेझरी	२८०/३	०.३५६	निजी भूमि
257	टवेझरी	२८०/४	०.३५६	निजी भूमि
258	टवेझरी	२८१/१	०.१५६	निजी भूमि
259	टवेझरी	२८१/२	१.१०४	निजी भूमि
260	टवेझरी	२८१/३	०.०१६	निजी भूमि
261	टवेझरी	२८२/१, २८२/२	१.८७४	निजी भूमि
262	टवेझरी	२८३/१	०.६०७	निजी भूमि
263	टवेझरी	२८३/२	०.१४२	निजी भूमि
264	टवेझरी	२८३/३	०.१४२	निजी भूमि
265	टवेझरी	२८४/१	०.०१२	निजी भूमि
266	टवेझरी	२८४/२	०. ००	२७८/६ में शामिल
267	टवेझरी	२८४/३	०.०७७	निजी भूमि
268	टवेझरी	२८४/४	०.२०२	निजी भूमि
269	टवेझरी	२८४/५	०.२०२	निजी भूमि
270	टवेझरी	२८४/६	०.२०२	निजी भूमि
271	टवेझरी	२८४/७	०.२०२	निजी भूमि
272	टवेझरी	२८५/१	१.१४०	निजी भूमि
273	टवेझरी	२८५/२	०. ००	२७८/६ में शामिल
274	टवेझरी	२८५/३, २७६/२	०.८०६	निजी भूमि
275	टवेझरी	२८६/१	०.०४५	निजी भूमि
276	टवेझरी	२८६/२	०. ००	२७८/६ में शामिल
277	टवेझरी	२८६/३	०.०५७	सरकारी भूमि
278	टवेझरी	२८६/४	०.०४५	निजी भूमि
279	टवेझरी	२८६/५	०.०१२	निजी भूमि
280	टवेझरी	२८६/६	०.४२१	निजी भूमि
281	टवेझरी	२८७/१	०.५३	निजी भूमि
282	टवेझरी	२८७/२	०.५३३	निजी भूमि
283	टवेझरी	२८८/१	१.१२६	निजी भूमि
284	टवेझरी	२८८/२	१.१२५	निजी भूमि
285	टवेझरी	२८९/१	१.०५२	निजी भूमि
286	टवेझरी	२८९/२	०.१८२	निजी भूमि
287	टवेझरी	२९०/१	०.२०२	निजी भूमि
288	टवेझरी	२९०/२	०.२०२	निजी भूमि
289	टवेझरी	२९१/१	०.३४	निजी भूमि
290	टवेझरी	२९१/२	०.१३८	निजी भूमि
291	टवेझरी	२९१/३	०.१३८	निजी भूमि

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.में)	स्थिति
292	टवेझरी	२६१/४	०.४१३	निजी भूमि
293	टवेझरी	२६२/१	०.४८६	निजी भूमि
294	टवेझरी	२६२/२	०.४४८	निजी भूमि
295	टवेझरी	२६२/३	०.१३७	निजी भूमि
296	टवेझरी	२६३/१	०.५७१	निजी भूमि
297	टवेझरी	२६३/३	०.५६६	निजी भूमि
298	टवेझरी	२६३/५	०.००	२७८/६ में शामिल
299	टवेझरी	२६३/६	०.०६१	निजी भूमि
300	टवेझरी	२६३/७	०.००	२७८/६ में शामिल
301	टवेझरी	२६४	०.५५०	निजी भूमि
302	टवेझरी	२६०/३, २६५/२क	१.०८	निजी भूमि
303	टवेझरी	२६६/१	०.२१	निजी भूमि
304	टवेझरी	२६६/२	०.००	२७८/६ में शामिल
305	टवेझरी	२६६/३	१.००३	निजी भूमि
306	टवेझरी	२६६/४	०.१६४	निजी भूमि
307	टवेझरी	२६६/५	०.७५५	निजी भूमि
308	टवेझरी	२६६/६	०.२४७	निजी भूमि
309	टवेझरी	२६७/१	०.४६२	निजी भूमि
310	टवेझरी	२६७/२	०.०३२	निजी भूमि
311	टवेझरी	२६७/३	०.४६३	निजी भूमि
312	टवेझरी	२६७/४	०.११७	निजी भूमि
313	टवेझरी	२६७/५	०.०८५	निजी भूमि
314	टवेझरी	२६७/६	०.२०२	निजी भूमि
315	टवेझरी	२६८/२, ३००/३	०.२०२	निजी भूमि
316	टवेझरी	२६८/३, ३००/४	०.२०२	निजी भूमि
317	टवेझरी	२६८/१, ३००/२	०.४१७	निजी भूमि
318	टवेझरी	२६६/१	१.१२६	निजी भूमि
319	टवेझरी	२६६/२	०.२०२	निजी भूमि
320	टवेझरी	३००/१	०.५०६	निजी भूमि
321	टवेझरी	३०१/४, ३०६/८	०.००	२०१/१ क में शामिल
322	टवेझरी	३०१/३, ३०६/४	०.४१३	निजी भूमि
323	टवेझरी	३०१/२, ३०६/३	०.००	२०१/१ क में शामिल
324	टवेझरी	३०१/१ख, ३०६/२	०.१५७	निजी भूमि
325	टवेझरी	३०१/१/१ख, ३०६/२	०.२१	निजी भूमि
326	टवेझरी	३०२/१	०.३४४	निजी भूमि

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.में)	स्थिति
327	टवेझरी	३०२/२	०.१३८	निजी भूमि
328	टवेझरी	३०४	०.१७८	निजी भूमि
329	टवेझरी	३०५/१	०.६६८	निजी भूमि
330	टवेझरी	३०५/२	०.०६८	निजी भूमि
331	टवेझरी	३०६/१	०.००	३०१/१ में शामिल
332	टवेझरी	३०६/२	०.००	३०१/१ में शामिल
333	टवेझरी	३०७/१	०.१२६	निजी भूमि
334	टवेझरी	३०७/३	०.१२६	निजी भूमि
335	टवेझरी	३०८/१	०.१६८	निजी भूमि
336	टवेझरी	३०८/२	०.२३१	निजी भूमि
337	टवेझरी	३०८/३	०.१२६	निजी भूमि
338	टवेझरी	३०८/४	०.००८	निजी भूमि
339	टवेझरी	३०८/५	०.००	२७८/६ में शामिल
340	टवेझरी	३०९	०.६०७	सरकारी भूमि सडक
341	टवेझरी	३१०	०.४०५	निजी भूमि
342	टवेझरी	३११/१	०.०३२	निजी भूमि
343	टवेझरी	३११/२	०.२३८	निजी भूमि
344	टवेझरी	३१२/१	०.३२४	निजी भूमि
345	टवेझरी	३१२/२	०.३२६	निजी भूमि
346	टवेझरी	३१३/१	०.५१४	निजी भूमि
347	टवेझरी	३१३/२	०.५१४	निजी भूमि
348	टवेझरी	३१४/१	०.६११	निजी भूमि
349	टवेझरी	३१४/२	०.६०७	निजी भूमि
350	टवेझरी	३१५	०.३२८	शासकीय भूमि घास
351	टवेझरी	३१६/१	०.०७७	शासकीय भूमि घास
352	टवेझरी	३१६/२	०.८०६	सरकारी भूमि जल
353	टवेझरी	३१८/२, ३१९/१, ३१९/२, ३२०/१, ३२१/२ख	२.३८७	निजी भूमि
354	टवेझरी	३१८/४, ३१९/१/२	०.०३२	निजी भूमि
355	टवेझरी	३२१/२क	०.१७८	निजी भूमि
356	टवेझरी	३२१/२ख	०.००	३१८/२ में शामिल
357	टवेझरी	३२०/२	०.०५७	निजी भूमि
358	टवेझरी	३२१/१	०.१७८	निजी भूमि
359	टवेझरी	३२२/३ख	०.०१६	निजी भूमि
360	टवेझरी	३२३/३ख	०.०१६	निजी भूमि
361	टवेझरी	३२४/१	०.०४४	शासकीय सडक

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.में)	स्थिति
362	टवेझरी	३२५/१क, ३२६/३, ३२५/१ख, ३२६/३	०.४१७	निजी भूमि
363	टवेझरी	३२५/१	०.४१७	निजी भूमि
364	टवेझरी	३२५/२	०.६२४	निजी भूमि
365	टवेझरी	३२५/३, ३२७	१.०८१	निजी भूमि
366	टवेझरी	३२६/१	०.२४५	निजी भूमि
367	टवेझरी	३२६/२	०.६१५	निजी भूमि
368	टवेझरी	३२६/३	०.३५	निजी भूमि
369	टवेझरी	३२६/४	०.५०२	निजी भूमि
370	टवेझरी	३२७	०.००	३२५/३ में शामिल
371	टवेझरी	३२८	०.६३५	निजी भूमि
372	टवेझरी	३२६/१, ३२६/२	०.०६६	निजी भूमि
373	टवेझरी	३२६/२	०.२६७	निजी भूमि
374	टवेझरी	३२६/३	०.२६७	निजी भूमि
375	टवेझरी	३३०/१	०.४२५	निजी भूमि
376	टवेझरी	३३०/२	०.२५६	निजी भूमि
377	टवेझरी	३३१/१क	०.६३	निजी भूमि
378	टवेझरी	३३१/२	०.२५६	निजी भूमि
379	टवेझरी	३३१/१ख	०.०८१	निजी भूमि
380	टवेझरी	३३२	२.३५१	निजी भूमि
381	टवेझरी	३३३	१.०५२	निजी भूमि
382	टवेझरी	३३४/३	५.३३४	सरकारी भूमि पहाड चट्टान
ग्राम टवेझरी का कुल योग			१४४.४०१ (हेक्टर)	
1	मंझारा	भाग ५३/१	११५.६६	वन भूमि
2	मंझारा	५५	२.३०६	सरकारी भूमि
3	मंझारा	८६/१	२.१८४	निजी भूमि
4	मंझारा	८६/२	०.७६५	निजी भूमि
5	मंझारा	८६/३	०.६४८	निजी भूमि
6	मंझारा	८६/४	०.४०४	निजी भूमि
7	मंझारा	८६/५	०.१३	निजी भूमि
8	मंझारा	८६/६	१.६०३	निजी भूमि
9	मंझारा	८६/७	०.५१६	निजी भूमि
10	मंझारा	८६/१२	०.०८१	निजी भूमि
11	मंझारा	६०/१	१.७०६	निजी भूमि
12	मंझारा	६०/२	१.६६४	म.प्र. शासन

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.में)	स्थिति
13	मंझारा	१००	०.७०६	सरकारी भूमि
14	मंझारा	१०६/१	३.७७८	सरकारी भूमि घास
15	मंझारा	१०६/२	०.४८८	निजी भूमि
16	मंझारा	१०७	०.१४६	निजी भूमि
17	मंझारा	१०८	०.८६	निजी भूमि
18	मंझारा	१०९	१.२४२	निजी भूमि
19	मंझारा	१११/१	०.८८	निजी भूमि
20	मंझारा	१११/२	०.८८	निजी भूमि
21	मंझारा	११२/२	०.५८८	निजी भूमि
22	मंझारा	११२/३	०.२४३	निजी भूमि
23	मंझारा	११३	०.३४८	निजी भूमि
24	मंझारा	११४/१	०.४२५	निजी भूमि
25	मंझारा	११४/२	०.५०६	निजी भूमि
26	मंझारा	११४/३	०.३५३	निजी भूमि
27	मंझारा	११४/५	०.१५	निजी भूमि
28	मंझारा	११४/८	०.२०२	निजी भूमि
29	मंझारा	११४/९	०.०६६	निजी भूमि
30	मंझारा	११४/१०	०.१६२	निजी भूमि
31	मंझारा	११५	०.७८१	निजी भूमि
32	मंझारा	११६	१.६१०	निजी भूमि
33	मंझारा	११७/१	०.३०४	निजी भूमि
34	मंझारा	११७/२	०.४०५	निजी भूमि
35	मंझारा	११७/३	०.६५१	निजी भूमि
36	मंझारा	११७/४	०.१०५	निजी भूमि
37	मंझारा	११८	०.१३३	निजी भूमि
38	मंझारा	११९/१, ११९/२, ११९/३, ११९/४	२.६२२	निजी भूमि
39	मंझारा	११९/५	०.१६२	निजी भूमि
40	मंझारा	१२१/२	०.३२४	निजी भूमि
41	मंझारा	१२३/१	०.१२६	निजी भूमि
42	मंझारा	१२३/२	०.१३	निजी भूमि
43	मंझारा	१२४	१.१७७	सरकारी भूमि सडक
44	मंझारा	१२६/१	०.१७७	निजी भूमि
45	मंझारा	१२७	०.५६३	सरकारी भूमि तालाब
46	मंझारा	१२८/१	०.०६५	निजी भूमि
47	मंझारा	१२८/२	०.२८३	निजी भूमि
48	मंझारा	१२८/३	०.१०१	निजी भूमि

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.में)	स्थिति
49	मंझारा	१२८/४	०.२६७	निजी भूमि
50	मंझारा	१२८/५	०.४४१	निजी भूमि
51	मंझारा	१२८/६	०.०५७	निजी भूमि
52	मंझारा	१२८/७	०.०६१	निजी भूमि
53	मंझारा	१२८/८	०.१६	निजी भूमि
54	मंझारा	१२८/९	०.२०२	निजी भूमि
55	मंझारा	१२८/१०	०.२०२	निजी भूमि
56	मंझारा	१२९/१	०.१०६	निजी भूमि
57	मंझारा	१२९/२	०.२०२	निजी भूमि
58	मंझारा	१२९/३	०.०६७	निजी भूमि
59	मंझारा	१३०/१	२.२४६	निजी भूमि
60	मंझारा	१३०/२	०.४०५	निजी भूमि
61	मंझारा	१३०/३	०.४०५	निजी भूमि
62	मंझारा	१३०/४	०.३६४	निजी भूमि
63	मंझारा	१३१	०.५५६	निजी भूमि
64	मंझारा	१३२/१	१.२२२	निजी भूमि
65	मंझारा	१३२/२	०.२०२	निजी भूमि
66	मंझारा	१३३/१	०.१२६	निजी भूमि
67	मंझारा	१३३/२	०.१२१	निजी भूमि
68	मंझारा	१३३/३	०.०७२	निजी भूमि
69	मंझारा	१३३/४	०.६५६	निजी भूमि
70	मंझारा	१३३/५	०.१०६	निजी भूमि
71	मंझारा	१५६/१, १५६/२, १५६/३	०.७५	निजी भूमि
72	मंझारा	१५८	०.२०२	निजी भूमि
73	मंझारा	१५९	०.३५६	निजी भूमि
74	मंझारा	१६०	०.३८	निजी भूमि
75	मंझारा	१६१/१	०.१६	निजी भूमि
76	मंझारा	१६२	०.२१	निजी भूमि
77	मंझारा	१६३	०.१७४	निजी भूमि
78	मंझारा	१६५	०.३८४	निजी भूमि
79	मंझारा	१६६/१	०.०३६	निजी भूमि
80	मंझारा	१६६/२	०.०८१	निजी भूमि
81	मंझारा	१६७	०.१०५	निजी भूमि
82	मंझारा	१६८/१	०.०४	निजी भूमि
83	मंझारा	१६९/१	०.०७३	निजी भूमि
84	मंझारा	१६९/२	०.१६८	निजी भूमि

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.में)	स्थिति
85	मंझारा	१६६/३	०.२०२	निजी भूमि
86	मंझारा	१७२	०.११३	निजी भूमि
87	मंझारा	१७३	०.११३	निजी भूमि
88	मंझारा	१७४/१	०.००४	निजी भूमि
89	मंझारा	१७४/२	०.११३	निजी भूमि
90	मंझारा	१७५/१	०.०५७	निजी भूमि
91	मंझारा	१७५/२	०.०६१	निजी भूमि
92	मंझारा	१७६/१	०.१६	निजी भूमि
93	मंझारा	१७६/२	०.१६२	निजी भूमि
94	मंझारा	१७७	०.०२	निजी भूमि
95	मंझारा	१७८/१	०.१७८	निजी भूमि
96	मंझारा	१७८/२	०.२०२	निजी भूमि
97	मंझारा	१७९	०.७८०	निजी भूमि
98	मंझारा	१८१	१.०४४	निजी भूमि
99	मंझारा	१८२/१	०.३२४	निजी भूमि
100	मंझारा	१८२/२	०.३२८	निजी भूमि
101	मंझारा	१८२/३	०.३६	निजी भूमि
102	मंझारा	१८३/१	०.३६६	निजी भूमि
103	मंझारा	१८३/२	०.३६६	निजी भूमि
104	मंझारा	१८४	५.५६५	निजी भूमि
105	मंझारा	१८६	१.३८	निजी भूमि
106	मंझारा	१९०/१	१.८५७	निजी भूमि
107	मंझारा	१९०/२	०.०२	निजी भूमि
108	मंझारा	१९०/३	०.१७४	निजी भूमि
109	मंझारा	१९०/४	०.१८४	निजी भूमि
110	मंझारा	१९०/५	०.१६२	निजी भूमि
111	मंझारा	१९०/६	०.४५४	निजी भूमि
112	मंझारा	१९२/१	०.०१२	निजी भूमि
113	मंझारा	१९२/२	०.२३	निजी भूमि
114	मंझारा	१९२/३	०.१४८	निजी भूमि
115	मंझारा	१९२/४	०.२२	निजी भूमि
116	मंझारा	१९३	०.२२२	निजी भूमि
117	मंझारा	१९४	०.७०५	निजी भूमि
118	मंझारा	१९५/१	०.२०२	निजी भूमि
119	मंझारा	१९५/२	०.०१६	निजी भूमि
120	मंझारा	१९५/३	०.१२१	निजी भूमि

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.में)	स्थिति
121	मंझारा	१६५/४	०.३०४	निजी भूमि
122	मंझारा	१६६/१	०.१४६	निजी भूमि
123	मंझारा	१६६/२	०.३१६	निजी भूमि
124	मंझारा	१६६/३	०.२६५	निजी भूमि
125	मंझारा	१६६/४	०.२१५	निजी भूमि
126	मंझारा	१६७	०.७	निजी भूमि
127	मंझारा	१६८	०.७१३	निजी भूमि
128	मंझारा	१६९/१	०.४६	निजी भूमि
129	मंझारा	२१३	०.४२१	सरकारी भूमि घास
130	मंझारा	भाग २१४/१	२६.७४४	वन भूमि
131	मंझारा	भाग २१४/२	१.२३	शासकीय भूमि
132	मंझारा	१२०/१	०.२५१	निजी भूमि
133	मंझारा	१२०/२	०.१०५	निजी भूमि
134	मंझारा	१२१/१	०.२११	निजी भूमि
135	मंझारा	१२१/३	०.३६४	निजी भूमि
136	मंझारा	१२२/४	०.२३	निजी भूमि
137	मंझारा	१२२/१	०.४३७	निजी भूमि
138	मंझारा	१२२/३	०.४०५	निजी भूमि
139	मंझारा	१२५	०.२७२	सडक
140	मंझारा	१२६/२	०.४५३	निजी भूमि
141	मंझारा	१३४/१	०.१२१	निजी भूमि
142	मंझारा	१३४/२	०.०१२	निजी भूमि
143	मंझारा	१३५/१	०.१२६	निजी भूमि
144	मंझारा	१३५/२	०.१७	निजी भूमि
145	मंझारा	१३५/३	०.१६६	निजी भूमि
146	मंझारा	१३५/४	०.१७	निजी भूमि
147	मंझारा	१३५/५	०.०६१	निजी भूमि
148	मंझारा	१३६/१	०.०६५	निजी भूमि
149	मंझारा	१६१/१	०.०६५	निजी भूमि
150	मंझारा	१३६/२	०.०६५	निजी भूमि
151	मंझारा	१५२/२	०.०२४	निजी भूमि
152	मंझारा	१६२/३	०.१४८	निजी भूमि
153	मंझारा	१३६/१	०.०१२	निजी भूमि
154	मंझारा	१५३	०.०५३	निजी भूमि
155	मंझारा	१३७/२	०.०६४	निजी भूमि
156	मंझारा	१४२	०.१०१	निजी भूमि



क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.में)	स्थिति
157	मंझारा	१४३	०.१०१	निजी भूमि
158	मंझारा	१४४	०.१०१	निजी भूमि
159	मंझारा	१३८/१	०.०७३	निजी भूमि
160	मंझारा	१३८/२	०.०६६	निजी भूमि
161	मंझारा	१३६/१	०.०१२	निजी भूमि
162	मंझारा	१३६/२	०.१०१	निजी भूमि
163	मंझारा	१५१	०.०५३	निजी भूमि
164	मंझारा	१६३/१	०.४८१	निजी भूमि
165	मंझारा	१४०/१	०.०६१	निजी भूमि
166	मंझारा	१४०/२	०.०६१	निजी भूमि
167	मंझारा	१४१	०.११७	निजी भूमि
168	मंझारा	२०६	०.१५	निजी भूमि
169	मंझारा	१४५/१	०.०८१	निजी भूमि
170	मंझारा	१४५/२	०.०८५	निजी भूमि
171	मंझारा	१४६	०.०४६	निजी भूमि
172	मंझारा	१७०	०.०२	निजी भूमि
173	मंझारा	२०३	०.१४६	निजी भूमि
174	मंझारा	१४७	०.०५३	निजी भूमि
175	मंझारा	२०४/३	०.०५७	निजी भूमि
176	मंझारा	१४८/१	०.०२४	निजी भूमि
177	मंझारा	१५०/१	०.०२७	निजी भूमि
178	मंझारा	२०५/१	०.०६७	निजी भूमि
179	मंझारा	२०७/१	०.०१६	निजी भूमि
180	मंझारा	१४८/२	०.०२४	निजी भूमि
181	मंझारा	१५०/२	०.०२६	निजी भूमि
182	मंझारा	२०५/२	०.०६७	निजी भूमि
183	मंझारा	२०७/२	०.०७७	निजी भूमि
184	मंझारा	१४६	०.०५३	निजी भूमि
185	मंझारा	१५२/१	०.०२४	निजी भूमि
186	मंझारा	१५४	०.०४६	निजी भूमि
187	मंझारा	१५५	०.२८३	सड़क
188	मंझारा	१५७	०.१६२	निजी भूमि
189	मंझारा	१६८/२	०.०६५	निजी भूमि
190	मंझारा	भाग १६६/२	०.२०२	निजी भूमि
191	मंझारा	१६६/३	०.३७	निजी भूमि

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.में)	स्थिति
192	मंझारा	२००/१	०.८१४	निजी भूमि
193	मंझारा	२००/२	०.२०२	निजी भूमि
194	मंझारा	२००/३	०.४०४	निजी भूमि
195	मंझारा	२०१/१	२.०२८	निजी भूमि
196	मंझारा	२०१/२	०.०२	निजी भूमि
197	मंझारा	२०१/३	०.१२१	निजी भूमि
198	मंझारा	२०२/१	०.०८१	निजी भूमि
199	मंझारा	२०२/२	०.०४	निजी भूमि
200	मंझारा	२०२/३	०.०४१	निजी भूमि
201	मंझारा	२०७/३	०.०६१	निजी भूमि
202	मंझारा	२०८/१	०.०८२	निजी भूमि
203	मंझारा	२०८/२	०.०१२	निजी भूमि
204	मंझारा	२०८/३	०.०१२	निजी भूमि
205	मंझारा	२०८/४	०.०१२	निजी भूमि
206	मंझारा	२०८/५	०.०१२	निजी भूमि
207	मंझारा	२०८/६	०.०१२	निजी भूमि
208	मंझारा	२०८/७	०.०१२	निजी भूमि
209	मंझारा	२०६/१	०.०३६	निजी भूमि
210	मंझारा	२०६/२	०.०७७	निजी भूमि
211	मंझारा	२१०	०.१६२	निजी भूमि
212	मंझारा	२११/१	०.०२	निजी भूमि
213	मंझारा	२११/२	०.०४	निजी भूमि
214	मंझारा	२११/३	०.०४१	निजी भूमि
215	मंझारा	२११/४	०.०४१	निजी भूमि
216	मंझारा	२११/५	०.०२	निजी भूमि
217	मंझारा	२११/११	०.०२	निजी भूमि

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.में)	स्थिति
218	मंझारा	२१२/१	०.०६३	निजी भूमि
219	मंझारा	२१२/२	०.४१३	निजी भूमि
220	मंझारा	२१२/३, २१२/४	२.१६३	निजी भूमि
221	मंझारा	२१२/५	०.०६	निजी भूमि
222	मंझारा	२१२/६	०.०६	निजी भूमि
ग्राम मंझारा का कुल योग			२२८.३०० (हेक्टर)	
ग्राम टवेझरी एवं मंझारा का कुल योग (१४४.४०१ हे. + २२८.३०० हे.)			३७२.७०१ (हेक्टर)	

NO F-19-4-2016-XII-2 In exercise of the power conferred under Sub-Section (2) of Section 17A of the Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1957, (No. 67 of 1957), after approval of Ministry of Mines, Government of India vide letter number 4/7/2015/M-VI, dated 08.03.2016, the State Government, hereby, reserves the area of 144.401 hectare of village Tavejhari and the 228.300 hectare to area of village Manjhara (Total area 372.701 hectare) of District Balaghat as specified in Schedule given below, in favour of MOIL Limited, undertaking of Government of India, for mineral Mangahese, namely:-

### SCHEDULE

Sr.No.	Name of village	Khasara No.	Area in Ha.	Status
1	Tavejhari	p.o 18/1	1.914	Govt. Land, Road
2	Tavejhari	18/2	0.081	Govt. Land
3	Tavejhari	19	0.146	Govt. Land
4	Tavejhari	20/1	0.146	Pvt. Land
5	Tavejhari	20/2	0.405	Pvt. Land
6	Tavejhari	20/4	0.305	Pvt. Land
7	Tavejhari	21/1	0.93	Pvt. Land
8	Tavejhari	21/2	0.069	Pvt. Land
9	Tavejhari	21/3	0.93	Pvt. Land
10	Tavejhari	22/1	0.474	Pvt. Land
11	Tavejhari	22/2	0.263	Pvt. Land
12	Tavejhari	22/3	0.259	Pvt. Land
13	Tavejhari	22/4	0.37	Pvt. Land

Sr.No.	Name of village	Khasara No.	Area in Ha.	Status
14	Tawejhari	22/5,29/2,30/3	0.26	Govt. Land Under Water
15	Tawejhari	23/1,24/1,2&26/2	0.559	Pvt. Land
16	Tawejhari	23/2,24/3,&26/3	0.202	Pvt. Land
17	Tawejhari	24/1, 24/2	0.057	Pvt. Land
18	Tawejhari	25,26/1	0.203	Pvt. Land
19	Tawejhari	27/1	0.482	Pvt. Land
20	Tawejhari	27/2	0.126	Pvt. Land
21	Tawejhari	27/3	0.206	Pvt. Land
22	Tawejhari	27/4	0.21	Pvt. Land
23	Tawejhari	27/5	0.352	Pvt. Land
24	Tawejhari	28/1	0.178	Pvt. Land
25	Tawejhari	28/2	0.18	Pvt. Land
26	Tawejhari	29/1	0.21	Pvt. Land
27	Tawejhari	29/2, 30/3	0.26	Pvt Land
28	Tawejhari	29/3	0.843	Pvt Land
29	Tawejhari	30/1	0.809	Pvt. Land
30	Tawejhari	30/2	0.077	Pvt. Land
31	Tawejhari	30/4	0.413	Pvt. Land
32	Tawejhari	31/1	0.117	Pvt. Land
33	Tawejhari	31/2	0.189	Pvt. Land
34	Tawejhari	31/3,33/1	0.547	Pvt. Land
35	Tawejhari	31/4	0.164	Pvt. Land
36	Tawejhari	31/6,33/6	0.348	Pvt. Land
37	Tawejhari	31/7, 33/7	0.32	Pvt. Land
38	Tawejhari	32/2	0.544	Pvt. Land
39	Tawejhari	32/3	0.202	Pvt. Land
40	Tawejhari	32/4	0.405	Pvt. Land
41	Tawejhari	32/5	0.186	Pvt. Land
42	Tawejhari	32/6	0.186	Pvt. Lnad
43	Tawejhari	32/7	0.279	Pvt. Lnad
44	Tawejhari	33/1	0.878	Pvt. Land
45	Tawejhari	33/3kha	0.29	Pvt. Land
46	Tawejhari	33/3ga	0.093	Pvt. Land
47	Tawejhari	33/8,31/8	0.389	Pvt. Land
48	Tawejhari	33/1ga,34/2kha	0.878	Pvt. Land
49	Tawejhari	33/3gha	0.093	Pvt. Land
50	Tawejhari	34/1	0.028	Govt. Land

Sr.No.	Name of village	Khasara No.	Area in Ha.	Status
51	Tawejhari	34/3ka	0.170	Pvt. Land
52	Tawejhari	34/3kha	0.506	Pvt. Land
53	Tawejhari	34/3ga	0.166	Pvt. Land
54	Tawejhari	34/3gha	0.170	Pvt. Land
55	Tawejhari	35	1.226	Pvt. Land
56	Tawejhari	36/1	0.405	Pvt. Land
57	Tawejhari	36/2	0.218	Pvt. Land
58	Tawejhari	37/1,39/1	0.002	Pvt. Land
59	Tawejhari	37/3,39/3	0.182	Pvt. Land
60	Tawejhari	37/4,39/4	0.182	Pvt. Land
61	Tawejhari	37/5,39/5	0.304	Pvt. Land
62	Tawejhari	38/1	0.251	Pvt. Land
63	Tawejhari	38/2,40	0.603	Pvt. Land
64	Tawejhari	41/1	0.91	Pvt. Land
65	Tawejhari	41/2	0.106	Pvt. Land
66	Tawejhari	41/4	0.093	Pvt. Land
67	Tawejhari	41/5	0.097	Pvt. Land
68	Tawejhari	41/1,41/3	0.91	Pvt. Land
69	Tawejhari	41/3	0.077	Pvt. land
70	Tawejhari	42/1	0.675	Pvt. land
71	Tawejhari	42/2	0.21	Pvt. land
72	Tawejhari	43	0.704	Pvt. land
73	Tawejhari	44/25, 45/25	0.125	Pvt. land
74	Tawejhari	44/1, 45/1	0.194	Pvt. land
75	Tawejhari	46/1	0.814	Pvt. land
76	Tawejhari	46/2	0.825	Pvt. land
77	Tawejhari	46/3	0.029	Pvt. land
78	Tawejhari	46/4,5	0.259	Pvt. land
79	Tawejhari	P.O. 47/1	0.165	Moil land
80	Tawejhari	47/3,	0.00	Merged in 46/3
81	Tawejhari	47/4	0.00	Merged in 46/4
82	Tawejhari	P.O. 48/1	0.080	Govt. Land
83	Tawejhari	48/2ka, 50/2ka	0.146	Moil
84	Tawejhari	48/2kha, 50/2gha	0.178	Moil
85	Tawejhari	49/1	0.483	Moil
86	Tawejhari	49/2	0.454	Moil
87	Tawejhari	49/3	0.304	Moil

Sr.No.	Name of village	Khasara No.	Area in Ha.	Status
88	Tawejhari	48/2cha, 50/2ja	0.212	Moil
89	Tawejhari	48/2ga, 50/2ka	0.401	Moil
90	Tawejhari	50/1	0.243	Moil
91	Tawejhari	50/2ga	0.376	Pvt. Land
92	Tawejhari	P.O. 50/2kha	0.592	Moil
93	Tawejhari	59/1ka	0.182	Gvt. Land
94	Tawejhari	P.O. 59/3ga	0.136	Moil + Pvt.
95	Tawejhari	P.O. 59/5	0.297	Moil
96	Tawejhari	P.O. 59/1kha, 59/1ga	0.400	Moil
97	Tawejhari	P.O. 59/6	0.150	Moil
98	Tawejhari	60/1, 61/1	0.886	Moil
99	Tawejhari	60/5	0.429	Moil
100	Tawejhari	60/6	0.17	Moil
101	Tawejhari	61/2	0.182	Moil
102	Tawejhari	62/2,67/3,68/1ka,68/1kha,68/1ga,68/2	5.236	Road
103	Tawejhari	P.O. 62/1	0.740	MOIL
104	Tawejhari	P.O. 63/1,63/2,63/3,63/4	0.637	Pvt. Land
105	Tawejhari	74	0.652	Govt. Land
106	Tawejhari	75/1	0.498	Pvt. Land
107	Tawejhari	75/2	0.405	Pvt. Land
108	Tawejhari	76/1,77/1	0.045	Pvt. Land
109	Tawejhari	76/2	0.214	Pvt. Land
110	Tawejhari	76/3	0.567	Pvt. Land
111	Tawejhari	76/4	0.202	Pvt. Land
112	Tawejhari	76/5	0.053	Pvt. Land
113	Tawejhari	76/6	0.316	Pvt. Land
114	Tawejhari	77/2	0.344	Pvt. Land
115	Tawejhari	78/1	0.223	Pvt. Land
116	Tawejhari	78/2	0.218	Pvt. Land
117	Tawejhari	78/3	0.308	Pvt. Land
118	Tawejhari	78/4	0.113	Pvt Land
119	Tawejhari	79/1	0.259	Pvt. Land
120	Tawejhari	79/2	0.206	Pvt. Land
121	Tawejhari	79/3	0.243	Pvt. Land
122	Tawejhari	79/4	0.065	Pvt. Land
123	Tawejhari	79/5	0.206	Pvt. Land
124	Tawejhari	79/6	0.174	Pvt. Land

Sr.No.	Name of village	Khasara No.	Area in Ha.	Status
125	Tawejhari	79/7	0.283	Pvt. Land
126	Tawejhari	79/8	0.182	Pvt. Land
127	Tawejhari	80/1	0.34	Pvt Land
128	Tawejhari	80/2	0.291	Pvt. land
129	Tawejhari	80/3	0.214	Pvt. Land
130	Tawejhari	80/4	0.235	Pvt. Land
131	Tawejhari	81/1,81/2	0.162	Pvt. Land
132	Tawejhari	81/3	0.551	Pvt. Land
133	Tawejhari	81/4	0.765	Pvt. Land
134	Tawejhari	81/5	0.700	Pvt. Land
135	Tawejhari	82/1ka	0.709	Pvt. Land
136	Tawejhari	82/2	0.202	Pvt. Land
137	Tawejhari	83/1	0.356	Pvt. Land
138	Tawejhari	83/2	0.243	Pvt. Land
139	Tawejhari	83/3	0.607	Pvt. Land
140	Tawejhari	84	0.64	Pvt. Land
141	Tawejhari	85/1, 85/2	0.794	Pvt. Land
142	Tawejhari	86	0.551	Pvt. Land
143	Tawejhari	87/2	0.02	Pvt. Land
144	Tawejhari	87/3	0.449	Pvt. Land
145	Tawejhari	88	0.315	Pvt. Land
146	Tawejhari	89	0.336	Pvt. Land
147	Tawejhari	90/1	0.636	Pvt. Land
148	Tawejhari	90/2	0.133	Pvt. Land
149	Tawejhari	91	0.971	Govt. Nalla
150	Tawejhari	94	0.081	Pvt. Land
151	Tawejhari	95	0.17	Govt. Grass
152	Tawejhari	96	0.206	Pvt. Land
153	Tawejhari	97/1	2.12	Grass
154	Tawejhari	97/2	0.518	Govt. Land, grass
155	Tawejhari	97/3	0.081	Govt. Land
156	Tawejhari	98/1	1.263	Govt. Land
157	Tawejhari	98/2	0.032	Govt. Land
158	Tawejhari	99/1	0.032	Pvt. Land
159	Tawejhari	99/2	0.032	Pvt. Land
160	Tawejhari	99/3	0.073	Pvt. Land
161	Tawejhari	100	0.057	Pvt. Land

Sr.No.	Name of village	Khasara No.	Area in Ha.	Status
162	Tawejhari	101	0.045	Govt. Land, Abadi
163	Tawejhari	102/1	0.032	Pvt. Land
164	Tawejhari	103/1,103/2	0.117	Pvt. Land
165	Tawejhari	104	0.073	Pvt. Land
166	Tawejhari	105/1	0.097	Pvt. Land
167	Tawejhari	106	0.045	Pvt. Land
168	Tawejhari	107	0.038	Pvt. Land
169	Tawejhari	108	0.024	Pvt. Land
170	Tawejhari	109	0.057	Pvt. Land
171	Tawejhari	110	0.045	Pvt Land
172	Tawejhari	111	0.081	Pvt. Land
173	Tawejhari	112	0.134	Pvt. Land
174	Tawejhari	113/1	0.028	Pvt. land
175	Tawejhari	113/2	0.004	Pvt. Land
176	Tawejhari	115, 116	0.081	Pvt. Land
177	Tawejhari	117	0.057	Pvt. Land
178	Tawejhari	236/1ka, 238/2, 278, 264/2, 285/2, 286/5, 288/2, 293/7, 296/2, 307/2	0.00	Road
179	Tawejhari	247/2kha	0.00	Pvt. Land
180	Tawejhari	247/1kha	0.101	Pvt. Land
181	Tawejhari	247/1ka	0.401	Pvt. Land
182	Tawejhari	248/1	0.529	Pvt. Land
183	Tawejhari	248/2	0.405	Pvt. Land
184	Tawejhari	248/3	0.526	Pvt. Land
185	Tawejhari	249/1	2.452	Pvt. Land
186	Tawejhari	250/1ka	0.89	Pvt. Land
187	Tawejhari	250/1kha	0.109	Pvt. Land
188	Tawejhari	250/1ga	0.709	Pvt. Land
189	Tawejhari	250/1gha, 295/1	0.47	Pvt. Land
190	Tawejhari	250/1cha	0.405	Pvt. Land
191	Tawejhari	251/1	0.202	Pvt. Land
192	Tawejhari	251/2	1.230	Pvt. Land
193	Tawejhari	252/1ka	0.259	Pvt. land
194	Tawejhari	252/1kha	0.364	Pvt. Land
195	Tawejhari	252/1ga	0.405	Pvt. Land
196	Tawejhari	252/3	0.134	Pvt. Land
197	Tawejhari	253/1	0.36	Pvt. Land



Sr.No.	Name of village	Khasara No.	Area in Ha.	Status
198	Tawejhari	253/2	0.125	Pvt. Land
199	Tawejhari	253/3	0.008	Pvt. Land
200	Tawejhari	253/4	0.081	Pvt. Land
201	Tawejhari	254/2	0.206	Pvt. land
202	Tawejhari	255, 257/1	0.069	Pvt. Land
203	Tawejhari	256/1	0.053	Pvt. land
204	Tawejhari	256/2	0.049	Pvt. Land
205	Tawejhari	258	0.036	Pvt. Land
206	Tawejhari	259	0.016	Pvt. Land
207	Tawejhari	260	0.024	Govt. Land
208	Tawejhari	261	0.032	Govt. Land
209	Tawejhari	262/1	0.024	Pvt. Land
210	Tawejhari	262/2	0.024	Pvt. land
211	Tawejhari	263	0.036	Pvt. land
212	Tawejhari	264/1	0.275	Govt. Land
213	Tawejhari	264/2	0.176	Pvt. land
214	Tawejhari	265	0.032	Pvt. Land
215	Tawejhari	266	0.19	Pvt. Land
216	Tawejhari	267/1	0.251	Pvt. Land
217	Tawejhari	267/2	0.51	Pvt. Land
218	Tawejhari	267/3	0.571	Pvt. Land
219	Tawejhari	267/4	0.129	Pvt. Land
220	Tawejhari	268/1	0.239	Pvt. Land
221	Tawejhari	268/2	0.089	Pvt. Land
222	Tawejhari	268/3	0.105	Pvt. Land
223	Tawejhari	269	0.843	Pvt. Land
224	Tawejhari	270/1	1.368	Pvt. Land
225	Tawejhari	270/2	0.615	Pvt. Land
226	Tawejhari	271/1	0.486	Pvt. Land
227	Tawejhari	271/2	0.988	Govt. Land, Road
228	Tawejhari	272/1	0.125	Pvt. Land
229	Tawejhari	272/2	0.436	Pvt. Land
230	Tawejhari	273/1ka,273/2kha	0.266	Pvt. Land
231	Tawejhari	273/2ka	0.156	Pvt Land
232	Tawejhari	273/1kha, 274/1kha,274/2kha	0.228	Pvt. Land
233	Tawejhari	274/1ka, 274/1,274/2,273/1ka	0.316	Pvt. Land
234	Tawejhari	274/3	0.142	Pvt. Land

Sr.No.	Name of village	Khasara No.	Area in Ha.	Status
235	Tawejhari	274/4	0.543	Pvt. Land
236	Tawejhari	273/1ga, 273/2ga	0.061	Pvt. Land
237	Tawejhari	275/3	0.405	Pvt. Land
238	Tawejhari	275/1	0.809	Pvt. Land
239	Tawejhari	275/2	0.81	Pvt. Land
240	Tawejhari	275/3	0.405	Pvt. Land
241	Tawejhari	276/1	0.486	Pvt. Land
242	Tawejhari	277/1	0.158	Pvt. Land
243	Tawejhari	277/2	0.54	Pvt. land
244	Tawejhari	277/3	0.352	Pvt. Land
245	Tawejhari	278/1	0.219	Pvt. Land
246	Tawejhari	278/2	0.47	Pvt. Land
247	Tawejhari	278/3	0.283	Pvt. Land
248	Tawejhari	278/4	0.483	Pvt. Land
249	Tawejhari	278/5	0.146	Pvt. Land
250	Tawejhari	278/6	0.097	Pvt. Land
251	Tawejhari	278/7	0.263	Pvt. Land
252	Tawejhari	278/9	0.567	Pvt. Land
253	Tawejhari	279/1	1.549	Pvt. Land
254	Tawejhari	280/1	0.117	Pvt. Land
255	Tawejhari	280/2	0.599	Govt. land, Road
256	Tawejhari	280/3	0.356	Pvt. Land
257	Tawejhari	280/4	0.356	Pvt. Land
258	Tawejhari	281/1	0.159	Pvt. Land
259	Tawejhari	281/2	1.104	Pvt. Land
260	Tawejhari	281/3	0.016	Pvt. Land
261	Tawejhari	282/1,282/2	1.874	Pvt. Land
262	Tawejhari	283/1	0.607	Pvt. Land
263	Tawejhari	283/2	0.142	Pvt. Land
264	Tawejhari	283/3	0.142	Pvt. Land
265	Tawejhari	284/1	0.012	Pvt. Land
266	Tawejhari	284/2	0.00	merged in 278/9
267	Tawejhari	284/3	0.077	Pvt. Land
268	Tawejhari	284/4	0.202	Pvt. land
269	Tawejhari	284/5	0.202	Pvt. Land
270	Tawejhari	284/6	0.202	Pvt. Land
271	Tawejhari	284/7	0.202	Pvt. Land

Sr.No.	Name of village	Khasara No.	Area in Ha.	Status
272	Tawejhari	285/1	1.14	Pvt. Land
273	Tawejhari	285/2	0.00	merged in 278/9
274	Tawejhari	285/3, 276/2	0.809	Pvt. Land
275	Tawejhari	286/1	0.045	Pvt. Land
276	Tawejhari	286/2	0.00	merged in 278/9
277	Tawejhari	286/3	0.057	Govt. Land
278	Tawejhari	286/4	0.045	Pvt. Land
279	Tawejhari	286/5	0.012	Pvt. Land
280	Tawejhari	286/6	0.421	Pvt. Land
281	Tawejhari	287/1	0.53	Pvt. Land
282	Tawejhari	287/2	0.533	Pvt. Land
283	Tawejhari	288/1	1.129	Pvt. Land
284	Tawejhari	288/2	1.125	Pvt. Land
285	Tawejhari	289/1	1.052	Pvt. Land
286	Tawejhari	289/2	0.182	Pvt. Land
287	Tawejhari	290/1	0.202	Pvt. Land
288	Tawejhari	290/2	0.202	Pvt. Land
289	Tawejhari	291/1	0.34	Pvt. Land
290	Tawejhari	291/2	0.138	Pvt. Land
291	Tawejhari	291/3	0.138	Pvt. Land
292	Tawejhari	291/4	0.413	Pvt. Land
293	Tawejhari	292/1	0.486	Pvt. Land
294	Tawejhari	292/2	0.448	Pvt. Land
295	Tawejhari	292/3	0.137	Pvt. Land
296	Tawejhari	293/1	0.571	Pvt. Land
297	Tawejhari	293/3	0.566	Pvt. Land
298	Tawejhari	293/5	0.00	merged in 278/9
299	Tawejhari	293/6	0.061	Pvt. Land
300	Tawejhari	293/7	0.00	merged in 278/9
301	Tawejhari	294	0.55	Pvt. Land
302	Tawejhari	250/3, 295/2ka	1.08	Pvt. Land
303	Tawejhari	296/1	0.21	Pvt. Land
304	Tawejhari	296/2	0.00	merged in 278/9
305	Tawejhari	296/3	1.003	Pvt. Land
306	Tawejhari	296/4	0.194	Pvt. Land
307	Tawejhari	296/5	0.755	Pvt. Land
308	Tawejhari	296/6	0.247	Pvt. Land

Sr.No.	Name of village	Khasara No.	Area in Ha.	Status
309	Tawejhari	297/1	0.462	Pvt. Land
310	Tawejhari	297/2	0.032	Pvt. Land
311	Tawejhari	297/3	0.463	Pvt. Land
312	Tawejhari	297/4	0.117	Pvt. Land
313	Tawejhari	297/5	0.085	Pvt. Land
314	Tawejhari	297/6	0.202	Pvt Land
315	Tawejhari	298/2, 300/3	0.202	Pvt. Land
316	Tawejhari	298/3, 300/4	0.202	Pvt. Land
317	Tawejhari	298/1, 300/2	0.417	Pvt. Land
318	Tawejhari	299/1	1.129	Pvt. Land
319	Tawejhari	299/2	0.202	Pvt. Land
320	Tawejhari	300/1	0.506	Pvt. Land
321	Tawejhari	301/4, 306/8	0.00	Merged in 201/1ka
322	Tawejhari	301/3, 306/4	0.413	Pvt. Land
323	Tawejhari	301/2, 306/3	0.00	Merged in 201/1ka
324	Tawejhari	301/1kha, 306/2	0.157	Pvt. Land
325	Tawejhari	301/1/1kha, 306/2	0.21	Pvt. Land
326	Tawejhari	302/1	0.344	Pvt. Land
327	Tawejhari	302/2	0.138	Pvt. Land
328	Tawejhari	304	0.178	Pvt. Land
329	Tawejhari	305/1	0.668	Pvt. Land
330	Tawejhari	305/2	0.098	Pvt. Land
331	Tawejhari	306/1	0.00	Merged in 301/1
332	Tawejhari	306/2	0.00	Merged in 301/1
333	Tawejhari	307/1	0.126	Pvt. Land
334	Tawejhari	307/3	0.129	Pvt. Land
335	Tawejhari	308/1	0.198	Pvt. Land
336	Tawejhari	308/2	0.231	Pvt. Land
337	Tawejhari	308/3	0.129	Pvt. Land
338	Tawejhari	308/4	0.008	Pvt. Land
339	Tawejhari	308/5	0.00	Merged in 278/9
340	Tawejhari	309	0.607	Govt. Land, Road
341	Tawejhari	310	0.405	Pvt. Land
342	Tawejhari	311/1	0.032	Pvt. Land
343	Tawejhari	311/2	0.238	Pvt. Land
344	Tawejhari	312/1	0.324	Pvt. Land
345	Tawejhari	312/2	0.329	Pvt. Land

Sr.No.	Name of village	Khasara No.	Area in Ha.	Status
346	Tavejhari	313/1	0.514	Pvt. Land
347	Tavejhari	313/2	0.514	Pvt. Land
348	Tavejhari	314/1	0.911	Pvt. Land
349	Tavejhari	314/2	0.607	Pvt. Land
350	Tavejhari	315	0.328	Govt. Land, Grass
351	Tavejhari	316/1	0.077	Govt. Land, Grass
352	Tavejhari	316/2	0.809	Govt. Land, Under Water
353	Tavejhari	318/2,319/1,319/2,320/1,321/2kha	2.387	Pvt. Land
354	Tavejhari	318/4,319/1/2	0.032	Pvt. Land
355	Tavejhari	321/2ka	0.178	Pvt. Land
356	Tavejhari	321/2kha	0.00	Merged in 318/2
357	Tavejhari	320/2	0.057	Pvt. Land
358	Tavejhari	321/1	0.178	Pvt. Land
359	Tavejhari	322/3kha	0.016	Pvt. Land
360	Tavejhari	323/3kha	0.016	Pvt. Land
361	Tavejhari	324/1	0.044	Govt. Road
362	Tavejhari	325/1ka,326/3,325/1kha,326/3	0.417	Pvt. Land
363	Tavejhari	325/1	0.417	Pvt. Land
364	Tavejhari	325/2	0.624	Pvt. Land
365	Tavejhari	325/3,327	1.081	Pvt. Land
366	Tavejhari	326/1	0.245	Pvt. Land
367	Tavejhari	326/2	0.615	Pvt. Land
368	Tavejhari	326/3	0.35	Pvt. Land
369	Tavejhari	326/4	0.502	Pvt. Land
370	Tavejhari	327	0.00	Merged in 325/3
371	Tavejhari	328	0.935	Pvt. Land
372	Tavejhari	329/1,329/2	0.069	Pvt. Land
373	Tavejhari	329/2	0.267	Pvt. Land
374	Tavejhari	329/3	0.267	Pvt. Land
375	Tavejhari	330/1	0.425	Pvt. Land
376	Tavejhari	330/2	0.259	Pvt. Land
377	Tavejhari	331/1ka	0.93	Pvt. Land
378	Tavejhari	331/2	0.259	Pvt. Land
379	Tavejhari	331/1kha	0.081	Pvt. Land
380	Tavejhari	332	2.351	Pvt. Land
381	Tavejhari	333	1.052	Pvt. Land
382	Tavejhari	334/3	5.334	Govt. Land, Pahad

Sr.No.	Name of village	Khasara No.	Area in Ha.	Status
				Chattan
<b>Total Area of Village Tawejhari</b>			<b>144.401 Hect.</b>	
1	Manjhara	p.o. 53/1	115.96	Forest Land
2	Manjhara	55	2.306	Govt. Land
3	Manjhara	89/1	2.184	Pvt. Land
4	Manjhara	89/2	0.765	Pvt. Land
5	Manjhara	89/3	0.648	Pvt. Land
6	Manjhara	89/4	0.404	Pvt. Land
7	Manjhara	89/5	0.13	Pvt. Land
8	Manjhara	89/6	1.903	Pvt. Land
9	Manjhara	89/7	0.516	Pvt. Land
10	Manjhara	89/12	0.081	Pvt. Land
11	Manjhara	90/1	1.706	Pvt. Land
12	Manjhara	90/2	1.964	Govt. of M.P.
13	Manjhara	100	0.709	Govt. Land
14	Manjhara	106/1	3.778	Govt. Land, Grass
15	Manjhara	106/2	0.488	Pvt. Land
16	Manjhara	107	0.146	Pvt. Land
17	Manjhara	108	0.89	Pvt. Land
18	Manjhara	109	1.242	Pvt. Land
19	Manjhara	111/1	0.88	Pvt. Land
20	Manjhara	111/2	0.88	Pvt. Land
21	Manjhara	112/2	0.588	Pvt. Land
22	Manjhara	112/3	0.243	Pvt. Land
23	Manjhara	113	0.348	Pvt. Land
24	Manjhara	114/1	0.425	Pvt. Land
25	Manjhara	114/2	0.506	Pvt. Land
26	Manjhara	114/3	0.353	Pvt. Land
27	Manjhara	114/5	0.15	Pvt. Land
28	Manjhara	114/8	0.202	Pvt. Land
29	Manjhara	114/9	0.069	Pvt. Land
30	Manjhara	114/10	0.192	Pvt. Land
31	Manjhara	115	0.781	Pvt. Land
32	Manjhara	116	1.91	Pvt. Land
33	Manjhara	117/1	0.304	Pvt. Land
34	Manjhara	117/2	0.405	Pvt. Land

Sr.No.	Name of village	Khasara No.	Area in Ha.	Status
35	Manjhara	117/3	0.651	Pvt. Land
36	Manjhara	117/4	0.105	Pvt. Land
37	Manjhara	118	0.133	Pvt. Land
38	Manjhara	119/1, 119/2, 119/3, 119/4	2.622	Pvt. Land
39	Manjhara	119/5	0.162	Pvt. Land
40	Manjhara	121/2	0.324	Pvt. Land
41	Manjhara	123/1	0.129	Pvt. Land
42	Manjhara	123/2	0.13	Pvt. Land
43	Manjhara	124	1.177	Govt. Land, Road
44	Manjhara	126/1	0.177	Pvt Land
45	Manjhara	127	0.563	Govt. Land, lake
46	Manjhara	128/1	0.065	Pvt. Land
47	Manjhara	128/2	0.283	Pvt. Land
48	Manjhara	128/3	0.101	Pvt. Land
49	Manjhara	128/4	0.267	Pvt. Land
50	Manjhara	128/5	0.441	Pvt. Land
51	Manjhara	128/6	0.057	Pvt. Land
52	Manjhara	128/7	0.061	Pvt. Land
53	Manjhara	128/8	0.19	Pvt. Land
54	Manjhara	128/9	0.202	Pvt. Land
55	Manjhara	128/10	0.202	Pvt. Land
56	Manjhara	129/1	0.106	Pvt. Land
57	Manjhara	129/2	0.202	Pvt. Land
58	Manjhara	129/3	0.067	Pvt. Land
59	Manjhara	130/1	2.249	Pvt. Land
60	Manjhara	130/2	0.405	Pvt. Land
61	Manjhara	130/3	0.405	Pvt. Land
62	Manjhara	130/4	0.364	Pvt. Land
63	Manjhara	131	0.559	Pvt. Land
64	Manjhara	132/1	1.222	Pvt. Land
65	Manjhara	132/2	0.202	Pvt. Land
66	Manjhara	133/1	0.129	Pvt. Land
67	Manjhara	133/2	0.121	Pvt. Land
68	Manjhara	133/3	0.072	Pvt. Land
69	Manjhara	133/4	0.659	Pvt. Land
70	Manjhara	133/5	0.109	Pvt. Land
71	Manjhara	156/1, 156/2, 156/3	0.75	Pvt. Land

Sr.No.	Name of village	Khasara No.	Area in Ha.	Status
72	Manjhara	158	0.202	Pvt. Land
73	Manjhara	159	0.356	Pvt. Land
74	Manjhara	160	0.38	Pvt. Land
75	Manjhara	161/1	0.19	Pvt. Land
76	Manjhara	162	0.21	Pvt. Land
77	Manjhara	163	0.174	Pvt. Land
78	Manjhara	165	0.384	Pvt. Land
79	Manjhara	166/1	0.036	Pvt. Land
80	Manjhara	166/2	0.081	Pvt. Land
81	Manjhara	167	0.105	Pvt. Land
82	Manjhara	168/1	0.04	Pvt. Land
83	Manjhara	169/1	0.073	Pvt. Land
84	Manjhara	169/2	0.198	Pvt. Land
85	Manjhara	169/3	0.202	Pvt. Land
86	Manjhara	172	0.113	Pvt. Land
87	Manjhara	173	0.113	Pvt. Land
88	Manjhara	174/1	0.004	Pvt. Land
89	Manjhara	174/2	0.113	Pvt. Land
90	Manjhara	175/1	0.057	Pvt. Land
91	Manjhara	175/2	0.061	Pvt. Land
92	Manjhara	176/1	0.16	Pvt. Land
93	Manjhara	176/2	0.162	Pvt. Land
94	Manjhara	177	0.02	Pvt. Land
95	Manjhara	178/1	0.178	Pvt. Land
96	Manjhara	178/2	0.202	Pvt. Land
97	Manjhara	179	0.78	Pvt. Land
98	Manjhara	181	1.044	Pvt. Land
99	Manjhara	182/1	0.324	Pvt. Land
100	Manjhara	182/2	0.328	Pvt. Land
101	Manjhara	182/3	0.36	Pvt. Land
102	Manjhara	183/1	0.396	Pvt. Land
103	Manjhara	183/2	0.396	Pvt. Land
104	Manjhara	184	5.565	Pvt. Land
105	Manjhara	189	1.38	Pvt. Land
106	Manjhara	190/1	1.857	Pvt. Land
107	Manjhara	190/2	0.02	Pvt. Land
108	Manjhara	190/3	0.174	Pvt. Land



Sr.No.	Name of village	Khasara No.	Area in Ha.	Status
109	Manjhara	190/4	0.184	Pvt. Land
110	Manjhara	190/5	0.162	Pvt. Land
111	Manjhara	190/6	0.454	Pvt. Land
112	Manjhara	192/1	0.012	Pvt. Land
113	Manjhara	192/2	0.23	Pvt. Land
114	Manjhara	192/3	0.148	Pvt. Land
115	Manjhara	192/4	0.22	Pvt. Land
116	Manjhara	193	0.222	Pvt. Land
117	Manjhara	194	0.705	Pvt. Land
118	Manjhara	195/1	0.202	Pvt. Land
119	Manjhara	195/2	0.016	Pvt. Land
120	Manjhara	195/3	0.121	Pvt. Land
121	Manjhara	195/4	0.304	Pvt. Land
122	Manjhara	196/1	0.146	Pvt. Land
123	Manjhara	196/2	0.316	Pvt. Land
124	Manjhara	196/3	0.295	Pvt. Land
125	Manjhara	196/4	0.215	Pvt. Land
126	Manjhara	197	0.7	Pvt. Land
127	Manjhara	198	0.713	Pvt. Land
128	Manjhara	199/1	0.49	Pvt. Land
129	Manjhara	213	0.421	Govt. Land, Grass
130	Manjhara	p.o. 214/1	29.744	Forest Land
131	Manjhara	p.o. 214/2	1.23	Govt. Land
132	Manjhara	120/1	0.251	Pvt. Land
133	Manjhara	120/2	0.105	Pvt. Land
134	Manjhara	121/1	0.211	Pvt. Land
135	Manjhara	121/3	0.364	Pvt. Land
136	Manjhara	122/4	0.23	Pvt. Land
137	Manjhara	122/1	0.437	Pvt. Land
138	Manjhara	122/3	0.405	Pvt. Land
139	Manjhara	125	0.272	Road
140	Manjhara	126/2	0.453	Pvt. Land
141	Manjhara	134/1	0.121	Pvt. Land
142	Manjhara	134/2	0.012	Pvt. Land
143	Manjhara	135/1	0.129	Pvt. Land
144	Manjhara	135/2	0.17	Pvt. Land
145	Manjhara	135/3	0.166	Pvt. Land

Sr.No.	Name of village	Khasara No.	Area in Ha.	Status
146	Manjhara	135/4	0.17	Pvt. Land
147	Manjhara	135/5	0.061	Pvt. Land
148	Manjhara	136/1	0.065	Pvt. Land
149	Manjhara	191/1	0.065	Pvt. Land
150	Manjhara	136/2	0.065	Pvt. Land
151	Manjhara	152/2	0.024	Pvt. Land
152	Manjhara	192/3	0.148	Pvt. Land
153	Manjhara	136/1	0.012	Pvt. Land
154	Manjhara	153	0.053	Pvt. Land
155	Manjhara	137/2	0.094	Pvt. Land
156	Manjhara	142	0.101	Pvt. Land
157	Manjhara	143	0.101	Pvt. Land
158	Manjhara	144	0.101	Pvt. Land
159	Manjhara	138/1	0.073	Pvt. Land
160	Manjhara	138/2	0.069	Pvt. Land
161	Manjhara	139/1	0.012	Pvt. Land
162	Manjhara	139/2	0.101	Pvt. Land
163	Manjhara	151	0.053	Pvt. Land
164	Manjhara	193/1	0.481	Pvt. Land
165	Manjhara	140/1	0.061	Pvt. Land
166	Manjhara	140/2	0.061	Pvt. Land
167	Manjhara	141	0.117	Pvt. Land
168	Manjhara	206	0.15	Pvt. Land
169	Manjhara	145/1	0.081	Pvt. Land
170	Manjhara	145/2	0.085	Pvt. Land
171	Manjhara	146	0.049	Pvt. Land
172	Manjhara	170	0.02	Pvt. Land
173	Manjhara	203	0.146	Pvt. Land
174	Manjhara	147	0.053	Pvt. Land
175	Manjhara	204/3	0.057	Pvt. Land
176	Manjhara	148/1	0.024	Pvt. Land
177	Manjhara	150/1	0.027	Pvt. Land
178	Manjhara	205/1	0.067	Pvt. Land
179	Manjhara	207/1	0.016	Pvt. Land
180	Manjhara	148/2	0.024	Pvt. Land
181	Manjhara	150/2	0.026	Pvt. Land
182	Manjhara	205/2	0.067	Pvt. Land

Sr.No.	Name of village	Khasara No.	Area in Ha.	Status
183	Manjhara	207/2	0.077	Pvt. Land
184	Manjhara	149	0.053	Pvt. Land
185	Manjhara	152/1	0.024	Pvt. Land
186	Manjhara	154	0.049	Pvt. Land
187	Manjhara	155	0.283	Road
188	Manjhara	157	0.162	Pvt. Land
189	Manjhara	168/2	0.065	Pvt. Land
190	Manjhara	P.O. 199/2	0.202	Pvt. Land
191	Manjhara	199/3	0.37	Pvt. Land
192	Manjhara	200/1	0.814	Pvt. Land
193	Manjhara	200/2	0.202	Pvt. Land
194	Manjhara	200/3	0.404	Pvt. Land
195	Manjhara	201/1	2.028	Pvt. Land
196	Manjhara	201/2	0.02	Pvt. Land
197	Manjhara	201/3	0.121	Pvt. Land
198	Manjhara	202/1	0.081	Pvt. Land
199	Manjhara	202/2	0.04	Pvt. Land
200	Manjhara	202/3	0.041	Pvt. Land
201	Manjhara	207/3	0.061	Pvt. Land
202	Manjhara	208/1	0.082	Pvt. Land
203	Manjhara	208/2	0.012	Pvt. Land
204	Manjhara	208/3	0.012	Pvt. Land
205	Manjhara	208/4	0.012	Pvt. Land
206	Manjhara	208/5	0.012	Pvt. Land
207	Manjhara	208/6	0.012	Pvt. Land
208	Manjhara	208/7	0.012	Pvt. Land
209	Manjhara	209/1	0.036	Pvt. Land
210	Manjhara	209/2	0.077	Pvt. Land
211	Manjhara	210	0.162	Pvt. Land
212	Manjhara	211/1	0.02	Pvt. Land
213	Manjhara	211/2	0.04	Pvt. Land
214	Manjhara	211/3	0.041	Pvt. Land
215	Manjhara	211/4	0.041	Pvt. Land
216	Manjhara	211/5	0.02	Pvt. Land
217	Manjhara	211/11	0.02	Pvt. Land
218	Manjhara	212/1	0.093	Pvt. Land
219	Manjhara	212/2	0.413	Pvt. Land

Sr.No.	Name of village	Khasara No.	Area in Ha.	Status
220	Manjhara	212/3, 212/4	2.193	Pvt. Land
221	Manjhara	212/5	0.09	Pvt. Land
222	Manjhara	212/6	0.09	Pvt. Land
<b>Total Area of Village Manjhara</b>			<b>228.300 Hect.</b>	
<b>GRAND TOTAL OF VILLAGES</b>			<b>372.701 Hect.</b>	
<b>TAWEJHARI+MANJHARA ( 144.401 + 228.300 Hect.)</b>				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तरुण राठी, उपसचिव.